



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 23-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 6, 2023 (JYAISTHA 16, 1945 SAKA)

CONTENTS		Pages
PART I—	Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government	.. 511-527
PART I-A—	Notifications by Local Government Department	.. Nil
PART I-B—	Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	.. Nil
PART II—	Statutory Notifications of Election Commission of India— Other Notifications and Republications from the Gazette of India	.. Nil
PART III—	Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name and Notices	.. 525-554
PART III-A—	Notifications by Universities	.. 35
PART III-B—	Notifications by Courts and Notices	.. Nil
PART IV—	Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India	.. Nil
PART V—	Notifications by Haryana State Legislature	.. Nil
SUPPLEMENT PART I—	Statistics—	.. Nil
SUPPLEMENT PART II—	General Review-	.. Nil
LEGISLATIVE SUPPLEMENT	—Contents	.. Nil
Ditto	PART I—Act	.. Nil
Ditto	PART II—Ordinances	.. Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation	.. Nil
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements	.. Nil



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 23-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 6, 2023 (JYAISTHA 16, 1945 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला-134109

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2023

क्रमांक एस०ई०सी०/३एम०ई०/2023/983.— राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा; भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 18 के उप-नियम (1) को नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2020 के पैरा 5 के साथ पठित करते हुए और अन्य सभी शक्तियां जो इस संबंध में सक्षम बनाती हैं, का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना संख्या एस०ई०सी०/३एम०ई०/2022/921, दिनांक 12.04.2022 का अतिक्रमण करते हुए हरियाणा राज्य में नगरपरिषदों और नगरपालिकाओं के सदस्यों एवं प्रधान के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित संशोधित निर्वाचन प्रतीकों की सूची अधिसूचित करता है:—

श्रेणी-I

राष्ट्रीय दल

क्र० संख्या	राष्ट्रीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	आम आदमी पार्टी	झाड़ू	206, राउस एबन्यू, डी०डी०यू० मार्ग, नई दिल्ली 110002
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी	4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली—110001
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	6— I, दीनादयाला उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली—110002 हरियाणा प्रदेश— 30, हुडा कम्प्लैक्स, रोहतक 124001 ई मेल haryanabjp@gmail.com 9416050612
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा	ए०के०गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट) नई दिल्ली 110001

क्र० संख्या	राष्ट्रीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	प्लॉट न0-90ए, लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग-793001

श्रेणी-II**राज्य स्तरीय दल**

क्र० सं०	राज्यीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	इण्डियन नेशनल लोकदल	चश्मा	80, सैक्टर-9, चण्डीगढ़ -160009
2.	जननायक जनता पार्टी	चाबी	एस0सी0ओ 20, दूसरा तल, जिला व्यापार केन्द्र, हुडा मार्किट, सैक्टर 56, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001

श्रेणी-III**प्रधान पद के लिए मुक्त चुनाव चिन्ह सूची**

क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक
1.	एअरकंडीस्नर	18.	घड़ी	35.	मटका
2.	अलमारी	19.	केन	36.	प्रेशर कुकर
3.	सेब	20.	ढोलक	37.	रिक्शा
4.	कुल्हाड़ी	21.	दरवाजा	38.	रोड रोलर
5.	गुब्बारा	22.	बाल और हंसिया	39.	चकला बेलन
6.	घंटी	23.	बिजली का स्विच	40.	कैंची
7.	बलैकबोर्ड	24.	पुष्प और तृण	41.	पोत
8.	ईंट	25.	गैस स्टोव	42.	कमीज
9.	पुल	26.	हाथ चक्की	43.	फावड़ा
10.	ब्रूश	27.	डमरू	44.	तलवार
11.	अंगूर का गुच्छा	28.	आम	45.	नल
12.	बस	29.	गले की टाई	46.	गुल्लीडंडा
13.	कैमरा	30.	कढ़ाई	47.	टार्च
14.	कैरमबोर्ड	31.	कलम दवात	48.	करनी
15.	कुर्सी	32.	पीपल का पत्ता	49.	वायलिन
16.	फलो सहित नारियल का पेड़	33.	गैस बत्ती	50.	सीटी
17.	चारपाई	34.	सुराही	51.	हाथ घड़ी

श्रेणी-IV**नगर परिषद्/नगरपालिका सदस्य के लिए मुक्त चुनाव चिन्ह सूची**

क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक
1.	वायुयान	21.	हस्तचलित पम्प	41.	स्लेट
2.	आटो रिक्शा	22.	हारमोनियम	42.	फावड़ा और बेलचा
3.	बल्ला	23.	टोप	43.	स्टूल
4.	साईकिल	24.	हाकी और गेंद	44.	टेबल पंखा

क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक
5.	नाव	25.	जीप	45.	टेबल लैम्प
6.	तीर कमान	26.	जग	46.	टेलीफोन
7.	बाल्टी	27.	केतली	47.	टेलीविजन
8.	मोमबतियां	28.	पतंग	48.	दो पतियां
9.	कार	29.	सीढ़ी	49.	दो तलवारे एवं एक ढाल
10.	गाड़ी (छकड़ा)	30.	लेडी पर्स	50.	छाता
11.	छत का पंखा	31.	लैटर बाक्स	51.	दीवार घड़ी
12.	कंधा	32.	ताला और चाबी		
13.	शंख	33.	हल		
14.	अनाज बरसाता हुआ किसान	34.	रेडियो		
15.	कप और प्लेट	35.	रेल का इंजन		
16.	ड्रम	36.	अंगूठी		
17.	बिजली का बल्ब	37.	उदयमान सूर्य		
18.	फ्राक	38.	स्कूटर		
19.	गैस सिलिण्डर	39.	तराजू		
20.	कांच का गिलास	40.	सिलाई मशीन		

3. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा आगे यह भी निर्देशित करता है कि यदि प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त मुक्त चुनाव प्रतीक नहीं है तो प्रधान के उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक आबंटन का कार्य, नगर परिषद्/नगरपालिका के सभी वार्डों के उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीकों के आबंटन के पूरा होने तक रोक दिया जाएगा। नगर परिषद्/नगरपालिका के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव प्रतीकों के आबंटन के बाद बचे हुये मुक्त चुनाव प्रतीक प्रधान के उम्मीदवारों को आबंटित किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रधान के उम्मीदवारों के लिए 51 मुक्त चुनाव प्रतीक हैं और सभी आबंटित किए जा चुके हैं, और नगर परिषद्/नगरपालिका के सभी वार्डों में उम्मीदवारों को मुक्त चुनाव प्रतीकों के आबंटन के बाद, शेष बचे हुए मुक्त चुनाव प्रतीकों को प्रधान के उम्मीदवारों को आबंटित किया जा सकता है।

4. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी निर्देश देता है कि अगर सदस्य नगर परिषद्/नगरपालिका के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रधान पद के शेष बचे हुये मुक्त चुनाव प्रतीक सदस्य उम्मीदवारों को आबंटित किये जा सकते हैं।

5. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी निर्देशित करता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (जिनका मुख्य कार्यालय हरियाणा राज्य के अन्दर स्थित है) यदि प्रधान व सदस्य नगर परिषद्/नगरपालिका के आम अथवा उप-चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा मुक्त रखे चुनाव चिन्हों (श्रेणी-III व IV) में से किसी एक मुक्त चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस दल को राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के तीन दिन के अन्दर-2 आवेदन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के आवेदन पर विचार करने उपरांत उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिन्ह आबंटित कर उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

धनपत सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
NIRVACHAN SADAN, SECTOR-17, PANCHKULA-134109

Notification

The 26th May, 2023

No. SEC/3ME/2023/983.— The State Election Commission, Haryana; exercising the powers conferred under article 243ZA of the Constitution of India and sub rule (1) of rule 18 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978 read with para 5 of the Haryana Municipal Councils and Municipal Committees Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2020, and all other powers enabling in this behalf, hereby supersedes its notification No.SEC/3ME/2022/921, dated 12.04.2022 and further to notifies the revised list of election symbols to be allotted to the contesting candidates for the post of President and Members of the Municipal Councils and Municipal Committees in the Haryana State as under:-

**TABLE-I
NATIONAL PARTIES**

Sr. No.	Name of the Party	Reserved Symbol	Address
1.	Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi 110002
2.	Bahujan Samaj Party	Elephant	4, Gurudawara Rakabganj Road, New Delhi-110001
3.	Bhartiya Janta Party	Lotus	6-A, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002.
4.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K. Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi 110001
5.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi-110001
6.	National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachauimiere District, East Khasi Hills District, Shilong-793001

**TABLE-II
STATE PARTIES**

Sr. No.	Name of the Party	Reserved Symbol	Address
1.	Indian National Lok Dal	Spectacles	80, Sector-9, Chandigarh-160009
2.	Jannayak Janta Party	Key	SCO 20, 2nd Floor, District Trade Centre, Huda Market, Sector 56, Gurugram, Haryana- 122001

**TABLE-III
List of Free Symbol for President**

1.	Air Conditioner	18.	Clock	35.	Pot
2.	Almiraha	19.	Crane	36.	Pressure Cooker
3.	Apple	20.	Dholak	37.	Rickshaw
4.	Axe	21.	Door	38.	Road Roller
5.	Balloon	22.	Ears of Corn and Sickel	39.	Rolling Pin
6.	Bell	23.	Electric switch	40.	Scissor
7.	Black Board	24.	Flowers & Grass	41.	Ship
8.	Brick	25.	Gas Stove	42.	Shirt
9.	Bridge	26.	Grinding wheel	43.	Spade
10.	Brush	27.	Hand Drum	44.	Sword
11.	Bunch of Grape	28.	Mango	45.	Tap
12.	Bus	29.	Neck Tie	46.	Tipcat
13.	Camera	30.	Pan	47.	Torch
14.	Carom Board	31.	Pen & Inkpot	48.	Trowel
15.	Chair	32.	Pepal Leaf	49.	Violin
16.	Coconut Tree with bearing Fruit	33.	Petromax	50.	Whistle
17.	Cot	34.	Pitcher	51.	Wrist watch

TABLE-IV
List of Free Symbol for Member of Municipal Council/Committee

1.	Aeroplane	18.	Frock	35.	Railway Engine
2.	Auto Rickshaw	19.	Gas Cylinder	36.	Ring
3.	Bat	20.	Glass Tumbler	37.	Rising Sun
4.	Bicycle	21.	Hand Pump	38.	Scooter
5.	Boat	22.	Harmonium	39.	Scale
6.	Bow and Arrow	23.	Hat	40.	Sewing Machine
7.	Bucket	24.	Hockey and Ball	41.	Slate
8.	Candles	25.	Jeep	42.	Spade and Stoker
9.	Car	26.	Jug	43.	Stool
10.	Cart	27.	Kettle	44.	Table Fan
11.	Ceiling Fan	28.	Kite	45.	Table Lamp
12.	Comb	29.	Ladder	46.	Telephone
13.	Conch	30.	Lady Purse	47.	Television
14.	Cultivator Winnowing grain	31.	Letter Box	48.	Two Leaves
15.	Cup & Saucer	32.	Lock and Key	49.	Two Swords and a Shield
16.	Drum	33.	Plough	50.	Umbrella
17.	Electric Bulb	34.	Radio	51.	Wall Clock

3. The State Election Commission, Haryana further directs that if there are no sufficient free election symbols for the candidates of President of Municipal Council/Committee, the work of allotment of election symbol to the candidates of President of Municipal Council/Committee shall be stopped till the completion of allotment of election symbols to the candidates in all wards of Municipal Councils/Committees. The free election symbols left after the allotment of election symbols to the candidates in all wards for members of Municipal Councils/Committees may be allotted to the candidates of President of Municipal Councils/Committee. For example, say there are 51 free election symbols for candidates of President of Municipal Council/Committee and all are allotted, and after allotment of free election symbols to the candidates for members in all wards of Municipal Council/Committee, remaining free election symbols may be allotted to the candidates for the post of President of Municipal Council/Committee.

4. The State Election Commission, Haryana also directs that if the same situation arises in the case of members, Municipal Councils/Committees then remaining free symbols for the post of President of Municipal Council/Committee may be allotted to the candidates for the post of members.

5. The State Election Commission, Haryana further directs that if any registered- unrecognized political party (The Head office of which is located in the State of Haryana) registered by the Election Commission of India, intends to contest the general or bye elections of Municipal council/Committee on any one of the free symbols (Table-“III” or “IV”) kept as free symbols by the State Election Commission, Haryana, in that case, the said party should make a representation to the State Election Commission, Haryana within a period of three days from the issuance of notification for the election schedule. The State Election Commission, Haryana after considering representation of that registered- unrecognized political party, may allot that symbol to that party and allow them to contest on that symbol.

DHANPAT SINGH,
State Election Commissioner, Haryana.